

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]	नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6—सितम्बर 12, 2014 (भाद्रपद 15, 1936)
No. 36]	NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6—SEPTEMBER 12, 2014 (BHADRA 15, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर—560231, दिनांक 21 अगस्त 2014

सं.5/1(1)/2014-I: राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक:01.01.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1.	एम.एस. रामकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
2.	के. रेंजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.
3.	वी. कृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.

क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
4.	गणपित कामत एच.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
5.	के. श्रीषन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
6.	चंद्र शेखर मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
7.	एन. सुरेन्द्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
8.	एन. आदिनारायणा मूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
9.	सी.के. राधाकृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
10.	प्रभाकर वर्णा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं.5/1(1)/2014-1: राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तिथि
1.	टी. पुष्पकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	01.01.2013
2.	रत्नाकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	01.01.2013
3.	एस. मधुसूदन राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	03.01.2013
4.	के.बी. अनंत राम शर्मा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.	01.01.2013
5.	ए. शेखर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	01.01.2013
6.	चंद्रम कुम्बार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	01.01.2013
7.	लक्ष्मीनारायण वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	01.01.2013
8.	के.एस. श्रीराम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	01.01.2013
9.	जी. आनन्द चंद्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	01.01.2013
10.	संध्या वी. कामत	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	01.01.2013
11.	रमेश ए.एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	01.01.2013
12.	पद्मा वी.के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	01.01.2013
13.	डॉ. आर. लक्ष्मी नरसिम्हन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	01.01.2013
14.	एन. श्रीकृष्णासामी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	01.01.2013

क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तिथि
15.	बैजू पर्याप्पिल्ली	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	01.01.2013
16.	एच.अनन्त कृष्णा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	01.01.2013
17.	पी. मालती	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	01.01.2013
18.	मेल्विन स्टीफेन डि' सूजा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	01.01.2013
19.	के. सीता मनोहर रेड्डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	01.01.2013
20.	एम. उमा महेश्वरी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	01.01.2013
21.	एस. रामकृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	01.01.2013
22.	सी.डी. श्रीधरा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	07.01.2013
23.	वसंत ई.	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	विशिष्ट वैज्ञानिक	07.01.2013
24.	डॉ. एम. अन्नादुरै	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	07.01.2013
25.	वी. केशव राजू	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	07.01.2013
26.	आर.के. श्रीनिवासन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	07.01.2013

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं.5/1(2)/2014-I : राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं:-

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	पदनाम	कार्यमुक्ति की तिथि
1.	शुभम अग्रवाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	25.10.2013
2.	पराग विजयराज पाठक	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	13.09.2013
3.	धीरज अग्रवाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	06.09.2013
4.	शिबु साहा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	30.08.2013

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं.5/1(2)/2014-I : राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :-

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	पदनाम	कार्यमुक्ति की तिथि
1.	अपूर्व मेहता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	17.06.2013
2.	विंटी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	28.06.2013
3.	पॉल पिया पार्थप्रतिम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	28.06.2013
4.	डी. चन्द्र मोहन व्यास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	09.07.2013

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	पदनाम	कार्यमुक्ति की तिथि
5.	रिशिजा मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	10.07.2013
6.	सनत कुमार पांडा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	16.08.2013
7.	अतुल श्रीमल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	19.08.2013

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 अगस्त 2014

सं० ए-19011/123/14-यू०आई०डी०ए०आई०-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू०आई०डी०ए०आई०), योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं० ए-12013/21/(डी डी/मुख्यालय)/11-यू०आई०डी०ए०आई० दिनांक 30.05.2014 तथा महानिदेशक, लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली कार्यालय के रिलीविंग आर्डर सं० प्रशा.- I/ऑफिस आर्डर सं. 156 दिनांक 01.08.2014 के अनुसरण में, श्री ऋषि कुमार सागर ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में वेतन बैंड रुपये 15,600-39000/-+ ग्रेड पे 6,600/- में, 05.08.2014 (पूर्वाह्न) से, प्रतिनियुक्ति आधार पर उप-निदेशक के रूप में, कार्यभार सम्भाल लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एन.के.शर्मा, उप-निदेशक (स्थापना)

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2014

सं. 14012/04/2009/अ.भा.से-III—राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम -3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य संवर्ग के वर्ष 2005 बैच भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य सुश्री तुलसी मद्दिनेनी को 22.08.2007 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14012/27/2013/अ.भा.से-III—राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम -3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच के केरल राज्य संवर्ग की सदस्य श्री हिमांशु कुमार राय दिनांक 19.05.2013 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2014

सं. 39019/02/2014स्था.(ख)—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य श्रीमती रजनी राजदान को दिनांक 16.08.2014 के अपराह्न से संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

यू. एस. चट्टोपध्याय, अवर सचिव

सं.-39019/06/2008-स्था.(ख)----अपनी नियुक्ति की अवधि पूरी हो जाने पर प्रो. डी.पी. अग्रवाल ने दिनांक 16.08.2014 के अपराह्न से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद त्याग दिया है।

यू. एस. चट्टोपध्याय, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय
प्रोतोकोल उप प्रमुख (एफ) का कार्यालय
नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 2014

सं. डीIII/460/सीएफ-71/2013—भारत के राष्ट्रपति बेंगलुरु में लिथुआनिया गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री किरोन धीरजलाल शाह की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री किरोन धीरजलाल शाह के कौंसली क्षेत्राधिकार में कर्नाटक और केरल राज्य होगा, जिसका केंद्र बेंगलुरु होगा।

संजीव खंडूरी, प्रोतोकोल उप प्रमुख (एफ)

सं. डीIII/460/सीएफ-04/2014—भारत की राष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में मालदीव गणराज्य के कौंसल के रूप में श्री अली आदम की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती हैं।

श्री अली आदम के कौंसली क्षेत्राधिकार में केरल राज्य होगा, जिसका केंद्र तिरुवनंतपुरम होगा।

संजीव खंडूरी, प्रोतोकोल उप प्रमुख (एफ)

सं. डीIII/460/सीएफ/50/2013—भारत के राष्ट्रपति मुंबई में बुल्गारिया गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री विनय रोहिदास पाटील की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री विनय रोहिदास पाटील के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र राज्य होगा, जिसका केंद्र मुंबई होगा।

संजीव खंडूरी, प्रोतोकोल उप प्रमुख (एफ)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 अगस्त 2014

सं. पीएफजी/1051/2014-प्रशासन-I—राष्ट्रपति, श्री राजीव माथुर को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सहायक निदेशक (रा.भा.) के रूप में वेतन बैंड-3 में 15,600—39,100/- रु. + 5,400/- रु. ग्रेड वेतन में 04.08.2014 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

रवि वजीरानी, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)
नई दिल्ली-110016, दिनांक 19 अगस्त 2014

सं ए-19014/01/2014-स्थापना—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/8/2013-सीएस-I (यू) दिनांक 2 जुलाई, 2014 के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अवर सचिव ग्रेड में नियुक्ति के अनुमोदन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्री दिनेश चन्द्र शर्मा (सीएसएस सं. 8408) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सीएसएस केडर अनुभाग अधिकारी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में ग्रेड पे रु. 6,600/- सहित पे बैंड-III (रु. 15,600—39,400) में दिनांक 01.08.2014 (पूर्वाह्न) से पूर्णरूपेण तदर्थ आधार पर 31.05.2015 तक की अवधि के लिए या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

- (i) तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बनाये रखने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए या सीएसएस के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करती।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताये किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- (iii) अधिकारी को डीओपीएण्डटी के द्वारा 'डी' स्तर के प्रशिक्षण के लिए किए गए नामांकन के अनुसार प्रशिक्षण में जाना होगा और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करना होगा।
- (iv) अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा का उस ग्रेड में वरिष्ठता के लिए या अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जायेगा।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राष्ट्रीय मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र

नोएडा, दिनांक 4 जुलाई 2014

सं. A-11019/11/2014(21)एनएमआरएफ(स्था.)—राष्ट्रपति, डॉ. देबाशीश कुमार महापात्रा, वैज्ञानिक 'सी' (पीबी-3, 15,600—39,100/- + 6,600/- रु) को 01.07.2014 से अगले आदेशों तक संशोधित सुनम्य पूरक योजना (एमएफसीएस) के अंतर्गत स्व-स्थाने (In-situ) आधार पर सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित (वैज्ञानिक) के वैज्ञानिक 'डी' (पीबी-3, 15,600—39,100 + ग्रेड पे 7,600/- रु) के ग्रेड में पदोन्नत/अपग्रेड करते हैं।

एन.के. भगत, उप-सचिव

कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जुलाई 2014

सं. 38011-01/2014-स्थापना-2—कृषि एवं सहकारिता विभाग में उपायुक्त (फसलें.) श्री सी.वाई, बारापात्रे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31 जुलाई, 2014 अपराहन को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2014

सं. 44011-21/2009-स्थापना-2—केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री नरोत्तम सिंह रावत को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के ज्ञापन सं. 15/95/2013-रा.भा. (सेवा) दिनांक 1 जुलाई, 2014 के अनुपालन में सहायक निदेशक (राजभाषा) (वेतन बैंड-3 वेतनमान रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) के पद पर तदर्थ पदोन्नति के आधार पर दिनांक 23 जुलाई, 2014 (पूर्वाहन) से कृषि एवं सहकारिता विभाग में तैनात किए जाते हैं।

यह तदर्थ पदोन्नति एक वर्ष या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए मान्य होगी।

के. संजयन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 अगस्त 2014

सं. 20012-1164/1996-स्थापना-2—राष्ट्रपति, डॉ. गजेन्द्र सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (खाद) को कृषि एवं सहकारिता विभाग में, वेतन बैंड-2, रु. 9,300—34,800/-, ग्रेड वेतन रु. 4,800/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 7,500—12,000/-) में सहायक विकास अधिकारी (खाद), (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख') राजपत्रित, गैर मंत्रालयिक, के पद पर दिनांक 6 अगस्त 2014 पूर्वाहन, से तदर्थ पदोन्नति के आधार पर छह माह अथवा पद के नियमित रूप से भरे जाने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ब्रजेश गोडरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, तारीख 13 अगस्त 2014

सं. 12-2/2011-एम एंड टी (प्रशा.)—राष्ट्रपति, पदोन्नती होने पर, श्रीमती जी अरुणा कुमारी तथा श्री अमीर चंद ककड को फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परिक्षण संस्थान में क्रमशः 7/7/2014 (अपराहन) तथा 7.8.2014 (पूर्वाहन) से पे बैंड-2 (9300-34800 रु) + 4600/- रु ग्रेड पे में प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ख राजपत्रित, अन्नसचिवीय), के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी बी भगत, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(डिसेबिलिटी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2014

सं. 3-7/2004-डी.डी.-4 (भाग-2): राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम के संस्था के अंतनियम के अनुच्छेद 50 से 51 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय विकलांग जनवित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में निम्नलिखित पदेन निदेशक को दिनांक 04.06.2014 से 03 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्ति करते हैं—

क्रम.सं.	नाम	संगठन	के स्थान पर
1	सुश्री किरणपुरी	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	श्री योगेन्द्र त्रिपाठी

एस. एस. गुप्ता] उपसचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जून.2014

सं. 4(349)/87-का. I&E इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) में वृत्तान्त 'जी' श्री जी.वी. रामाराजू (कर्मचारी कोड :129) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2014 से संचालित होगा।

विनोद कुमार, उप निदेशक

दिनांक 31 जुलाई 2014

सं. 4(589)/95-का. I—इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) में वृत्तान्त 'ई', श्री डी.पी. सिंह (कर्मचारी कोड : 253) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2014 से संचालित होगा।

विनोद कुमार, उप निदेशक

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2014

सं. ईआरबी-1/2007/10/4—रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.07.2014 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं:-

i)	डॉ. पी.एस. प्रसाद,	महानिदेशक/आरएचएस
ii)	श्री सुधीर मित्तल	सलाहकार (पुल)
iii)	श्री एम.एस. मेहरा,	सलाहकार (गोपनीय)
iv)	एस.के. धवन,	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
v)	श्री दलजीत सिंह,	निजी सचिव
vi)	टी.एम. मुकुन्दन,	अनुभाग अधिकारी
vii)	श्री एन.के. सेवालिया	अनुभाग अधिकारी

पी. सी. गजभिये, सचिव रेलवे बोर्ड

सं.-I/2007-ईआरबी/10/4— श्री कुल भूषण, सदस्य बिजली, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.07.2014 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-I/2010/10/4—श्री अमिताभ लाल, अपर सदस्य (वाणिज्य), रेलवे बोर्ड 30.07.2014 के पूर्वाह्न से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. गजभिये, सचिव रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-I/2007/10/4—श्री श्रीनिवास सिंह, उप निदेशक(राजभाषा), रेलवे बोर्ड का दिनांक 04.08.2014 को निधन हो गया है।

पी. सी. गजभिये, सचिव रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2014

सं. ई(जी.पी.)2011/3/2—राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के बिजली इंजीनियरिंग विभाग के निम्नलिखित ग्रुप, बी अधिकारी की दिनांक 10.07.2012 से भारतीय रेल बिजली इंजीनियरिंग सेवा (आई.आर.एस.ई.ई.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2011-12 के लिए पैनल

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	रेलवे
1.	सुनील कुमार*	पूर्व तट रे

*श्री सुनील कुमार 01.06.2014 से ही कनिष्ठ वेतनमान में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति श्री बी.के. मिश्रा के द्वारा कैट/इलाहाबाद में दायर की गई याचिका सं. 822/2012 के परिणाम के अधीन की जाती है।

सुमन शर्मा, निदेशक, स्था., (राज.पदो.)
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 9 अगस्त 2014

संख्या एल0एच-21012/3/2013एस एल—राष्ट्रपति निम्नलिखित सहायक कार्यकारी अभियन्ता को उप-निदेशकों के पद पर पे बैंड-3 रु0 15,600-39,100/- +रु0 6,600/- के ग्रेड वेतन में दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	श्री कुलवंत सिंह	01-05-2014(अपराह्न)
2	श्री उमेश कुमार	30-06-2014
3	श्री अनिल एन्टोनी	02-06-2014
4	श्री के0 कार्तिक चेन्सुदार	02-05-2014
5	श्री मुकेश कुमार	01-05-2014(अपराह्न)
6	श्री जी0 सत्यनारायणा	19-05-2014

संजय मित्तल, अवर सचिव

संख्या एल0एच-21012/5/2013एलएल—राष्ट्रपति निम्नलिखित उप-निदेशकों को निदेशक के पद पर पे बैंड-3 रु0 15,600-39,100/- + रु0 7,600 के ग्रेड वेतन में दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	श्री एस जयरामन	30-06-2014
2	श्री आर0 एम0 पटेल	10-04-2014 (अपराह्न)

संजय मित्तल, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2014

सं.-ए-380131/2014-ई-1(बी)—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में निजी सचिव के रूप में कार्य कर रही केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की अधिकारी, श्रीमती संतोष धवन दिनांक 30.06.2014 (अपराह्न) को अधिषिप्ता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गई हैं।

डी.आर. शर्मा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई 2014

सं. 24/2014, फा.सं. 11/6/2012-प्रशा.----सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 की सं. 22) की धारा 5(1) और धारा 19 (1) के तहत जल संसाधन मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों (स्कंधों) में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों की समेकित सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नियुक्त किए गए सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम सर्वश्री/श्री/श्रीमति	अनुभाग कार्य का नाम/डेस्क/एससी/एसटी/ओबीसी सेल	नियुक्त किए गए अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम सर्वश्री/श्री/श्रीमति/कु.
1	नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव (प्रशा.)	प्रशासन अनुभाग और एससी/एसटी/ओबीसी सेल	खाटचिन लांगेल, निदेशक,(प्रशासन)

2	अरूण कुमार, अवर सचिव, (समन्वय)	समन्वय अनुभाग	बनारसी राम, उप सचिव (समन्वय और आईडी)
3	अशोक कुमार गुप्ता, अवर सचिव (आई डी)	अवसंरचना विकास	
4	आर.के. ओझा, अवर सचिव, (संसद) जितेन्दर चड्ढा, अवर सचिव (स्था. III)	संसद	रामस्वरूप, निदेशक (स्था. III और संसद), एफबीपी के स्थापना संबंधी मामलों को छोड़कर
5	ए.सी. त्रिवेदी अवर सचिव (स्था. III)	स्थापना III अनुभाग	
क	नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव, (सतर्कता एवं एफबीपी)	सतर्कता अनुभाग और एफबीपी के स्थापन मामलें	प्रभात त्यागी, निदेशक (सतर्क और स्था)
6	ए.के. कौशिक अवर सचिव (स्था. I)	स्थापन- I अनुभाग	एफबीपी की स्थापना संबंधी मामलों सहित
7	विनीत अब्राहम, अवर सचिव (सीजीडब्ल्यूबी)	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड डेस्क	चारुल बरनवाल, निदेशक (जीडब्ल्यू स्था. और जीए)
(ख)	आर.के. ओझा, अवर सचिव (जीए)	सामान्य प्रशा. और सीआर अनुभाग	
8	शशि पाल, अवर सचिव (पीएसयू एवं पीपीपी)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अनुभाग और पीपीपी प्रकोष्ठ	आर.के. गुप्ता (जीडब्ल्यू और ई-गवर्नेंस)
9	नन्दन एन., अवर सचिव (जी डब्ल्यू)	भूजल डेस्क	
(ग)	अशोक कुमार गुप्ता अवर सचिव (ई-गवर्नेंस)	ई-गवर्नेंस सेल	
10	वी. के. बालयान, अवर सचिव (ईए)	विदेशी मामलों के सहायक विदेशी प्रशिक्षण और द्विपक्षीय मामले और आंतरिक कार्य	खाटचिन लांगेल, निदेशक (ईए)
(घ)	वी. के. बालयान, अवर सचिव (डब्ल्यूएस)	आंतरिक कार्य अध्ययन इकाई	सी.के. रावत, उप सचिव, (डब्ल्यूएस)
11	बी.एल. मीना, अवर सचिव, (बीएंडबी)	जल गुणवत्ता मामले	रविन्द्र सिंह निदेशक (जल गुणवत्ता)
(ड)	शशि पाल, अवर सचिव, (सूचना, शिक्षा और संचार)	सूचना, शिक्षा और संचार सेल	अशोक गुप्ता, निदेशक (आईईसी और ई-II (जुलाई, से दिसम्बर, 2014 तक श्री अशोक गुप्ता,
12	एस.के. कटारिया, अवर सचिव, (स्था-II)	स्था-II अनुभाग	

			निदेशक के प्रशिक्षण अवधि के लिए श्री आर.के. गुप्ता, निदेशक (जीडब्ल्यू एंड ई-गवर्नेंस) स्था-॥ और श्री प्रभात त्यागी, निदेशक और स्था) आईईसी के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी होंगे।
13	श्रद्धा माथुर, सहायक निदेशक (रा.भा.)	राजभाषा अनुभाग	रमेश बाबू अणियारी, निदेशक, (राजभाषा)
14	अवनीश कांत, वरिष्ठ जल वैज्ञानिक	ब्रह्मपुत्र एवं बराक विंग के जलविज्ञान परियोजनाएं	अनुज कंवल, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएंडबी)
15	मुन्नी लाल, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (गंगा)	गंगा स्कंध	एन.के.माथुर, आयुक्त (गंगा)
16	रविश अली, अवर सचिव (पीपी)	नीति और आयोजना अनुभाग	एम. के. सिन्हा वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पीपी)
17	अजय कुमार, अवर सचिव, (ई-IV)	एमसीए, बीसीबी, बीआरबी एसएससीएसी तुगंभद्रा बोर्ड से संबंधित मामले और एनडब्ल्यूडीए के स्थापना संबंधी मामले	
18	मोती लाल, निदेशक, (सीएडी)	सीएडी से संबंधित मामलों के लिए राज्य परियोजना स्कंध	प्रदीप कुमार आयुक्त (एसपीआर)
19	असित चतुर्वेदी, उपायुक्त (बीएम)	नदी बेसिन प्रबंधन, यूपी, बिहार, एमपी का प्रशा. पुनर्गठन अधिनियम, अन्तर्राज्य जल विवाद अधिकरण, अन्तरराज्य जलविवाद अधिकरण, एमडब्ल्यूडीए के तकनीकी मामलों और नदियों को जोड़ना।	एस.के.गंगवार, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम)
(च)	अजय कुमार, अवर सचिव (ई-IV)	परियोजना अनुभाग	ओ.आर.के.रेड्डी, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पीआर)

20	एस.के.दहिया, अवर सचिव, (पेन-गंगा)	पेनिसुला नदी स्कंध	रीडिंग शिमरे, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पेन रिवर)
21	अनिल कुमार, सहायक अभियंता, (एमआई)	लघु सिंचाई	एस.एल.जैन, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एमआई)
(छ)	ए.सी.त्रिवेदी, अवर सचिव (डब्ल्यूबी)	जल निकाय	
22	एस पी अब्राहम, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (सिंधु)	सिंधु स्कंध	के.वोहरा, आयुक्त (सिंध)
23	बिन्दु श्री देथन निदेशक (एमआई)	लघु सिंचाई सांख्यिकीय	सर्वेश कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक
24	विजय श्रीवास्तव, अवर सचिव (वित्त)	वित्त स्कंध वित्त डेस्क और बजट अनुभाग	मनीष त्रिपाठी, निदेशक, (वित्त)
25	जोगिन्दर सिंह, निदेशक (राष्ट्रीय जल मिशन)	राष्ट्रीय जल मिशन	एम. सत्यनारायणन सलाहकार (समन्वय एवं निगरानी)
26	के.के.पांडे, सहा.लेखा नियंत्रक	प्रधान लेखा कार्य और रोकड़ अनुभाग संबंधी मामले ।	एस.टी.उके, लेखा नियंत्रक
27	विश्वनाथ दास, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	वेतन एवं लेखाधिकारी (एफवीपी) से संबंधित मामले।	
28	डी.डी. गायकवाड़, वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीडब्ल्यूपीआरएस)	वेतन एवं लेखाधिकारी (सीडब्ल्यूपीआरएस) से संबंधित मामले।	
29	डी.पी.शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी)	वेतन एवं लेखाधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी) से संबंधित मामले।	
30	शलभ कुमार, सहायक लेखा नियंत्रक (केन्द्रीय जल आयोग)	वेतन एवं लेखाधिकारी (के.ज.आ.) से संबंधित मामले।	
31	उपेन्द्र मल्होत्रा, वेतन एवं लेखा अधिकारी (सीएसएमआरएस)	वेतन एवं लेखाधिकारी (सीएसएमआरएस) से संबंधित मामले।	

टिप्पणी: यदि कोई सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी स्थानान्तरण/सेवा निवृत्ति/किसी अन्य कारणों की वजह से बदल जाता है तथा वर्तमान सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी के स्थान पर कोई नया अधिकारी कार्यभार ग्रहण करता है तो वह सौंपे गए कार्य हेतु स्वतः ही सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी माना जाएगा । यदि कोई सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी छुट्टी पर चला जाता है तो संबंधित संपर्क अधिकारी अथवा अधिकारी, जिसे संबंधित प्रभाग/शाखा अधिकारी के पद का कार्यभार सौंपा गया है, उन्हें संबंधित कार्य के लिए स्वतः ही सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी माना जाएगा ।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2014

संख्या. ए - 32014/01/2014-प्रशा.1--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं०-6/10/2013-सी. एस.-1(एस) दिनांक 31.12.2013 के अनुसरण में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की श्रीमती रिया सिन्हा(अनु० जनजाति), सहायक(सीएसएल नं० एवं वर्ष: 2133/2003) को इस मंत्रालय में वेतन बैंड-2: 9300-34800/-रु+ग्रेड वेतन-4800/-रु. में अनुभाग अधिकारी (ग्रुप 'बी'/राजपत्रित) के पद पर दिनांक 27.06.2014(पूर्वाहन) से तदर्थ आधार पर नियुक्ति करते हैं।

2. श्रीमती रिया सिन्हा की अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है :-

- (i) तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.06.2014 तक अथवा सेवा-निवृत्ति की तिथि तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, होगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के लिए नियमित नियुक्ति की चयन-सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का, कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (iii) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति चयन सूची द्वारा नियमित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक बनी रहेगी।

पवन कुमार, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 231, the 21st August 2014

No. 5/1(1)/2014-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/ Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2013 and until further orders:

Sl. No.	Name Shri/Smt/Kum	Post from which promoted	Post to which promoted
1.	M.S. Ramkumar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
2.	K. Renji	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
3.	V. Krishnan	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
4.	Ganapathi Kamath H.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
5.	K. Sreeshan	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
6.	Chandra Sehkhara Mishra	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
7.	N. Surendran	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
8.	N. Adinarayana Murthy	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
9.	C.K. Radhakrishnan	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
10.	Prabhakara Varna	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 5/1(1)/2014-I: The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each and until further orders:

Sl.No	Name Shri/Smt/Kum	Post from which promoted	Post to which promoted	Date of Promotion
1	2	3	4	5
1.	Pushpakumar T.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE	01.01.2013
2.	Rathnakara	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG	01.01.2013
3.	S. Madhusudhana Rao	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG	03.01.2013
4.	K.B. Anantha Rama Sarma	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H	01.01.2013
5.	A. Sekar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG	01.01.2013
6.	Chandram Kumbar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE	01.01.2013
7.	Lakshminarayan V.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF	01.01.2013
8.	K.S. Sreeram	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF	01.01.2013
9.	G. Ananda Chandran	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF	01.01.2013
10.	Sandhya V. Kamat	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG	01.01.2013
11.	Ramesh A. S.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG	01.01.2013
12.	Padma V.K.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF	01.01.2013
13.	Dr.R. Lakshmi Narasimhan	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG	01.01.2013

1	2	3	4	5
14.	N. Krishna Samy	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE	01.01.2013
15.	Baiju Payyappilly	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF	01.01.2013
16.	H. Anantha Krishna	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE	01.01.2013
17.	P. Malathi	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE	01.01.2013
18.	Melwyn Stephen D'souza	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD	01.01.2013
19.	K. Sita Manohar Reddy	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE	01.01.2013
20.	M. Uma Maheswari	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE	01.01.2013
21.	S. Ramakrishnan	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE	01.01.2013
22.	C.D. Sridhara	Scientist/Engineer-H	Outstanding Scientist	07.01.2013
23.	Vasantha E.	Outstanding Scientist	Distinguished Scientist	07.01.2013
24.	Dr. M. Annadurai	Scientist/Engineer-H	Outstanding Scientist	07.01.2013
25.	V. Kesava Raju	Scientist/Engineer-H	Outstanding Scientist	07.01.2013
26.	R.K. Srinivasan	Scientist/Engineer-H	Outstanding Scientist	07.01.2013

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No.5/1(2)/2014-I : The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :

Sl. No.	Name Shri/Smt/Kum	Designation	Date of Relief
1.	Shubham Agarwal	Scientist/Engineer-SC	25.10.2013
2.	Parag Vijayraj Pathak	Scientist/Engineer-SC	13.09.2013
3.	Dheeraj Agarwal	Scientist/Engineer-SC	06.09.2013
4.	Shibu Saha	Scientist/Engineer-SC	30.08.2013

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No.5/1(2)/2014-I : The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :

Sl. No.	Name Shri/Smt/Kum	Designation	Date of Relief
1.	Apoorv Mehta	Scientist/Engineer-SC	17.06.2013
2.	Vinti	Scientist/Engineer-SC	28.06.2013
3.	Paul Piya Parthapratim	Scientist/Engineer-SC	28.06.2013
4.	D. Chandra Mohan Vyas	Scientist/Engineer-SC	09.07.2013
5.	Rishija Misra	Scientist/Engineer-SC	10.07.2013
6.	Sanat Kumar Panda	Scientist/Engineer-SC	16.08.2013
7.	Atul Shrima	Scientist/Engineer-SD	19.08.2013

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

PLANNING COMMISSION
(UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA)

New Delhi-110001, the 6th August 2014

No. A-19011/123/14-UIDAI. In pursuance of Unique Identification Authority of India (UIDAI), Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(DD/HQ)/11-UIDAI dated 30.05.2014 and O/o the Director General of Audit(Central Expenditure), New Delhi relieving Order No. Admn.I/Office Order No. 156 dated 01.08.2014, Shri Rishi Kumar Sagar has assumed the charge of the post of Deputy Director in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f 05.08.2014 (F/N) in the pay band of Rs.15600—39100 + Grade Pay of Rs. 6600/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

N.K. SHARMA, Deputy Director (Estt)

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi the 21st August 2014

No. 14012/04/2009-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Ms. Thulasi Maddineni, member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Karnataka of 2005 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 22.08.2007.

NAVNEET MISRA, Under Secretary

No.14012/27/2013-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri. Himanshu Kumar Rai, member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Kerala of 2010 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 19.05.2013.

NAVNEET MISRA, Under Secretary

New Delhi, the 22nd August 2014

No. 39019/02/2014-Estt (B)—The President is pleased to appoint Smt. Rajni Razdan, Member, Union Public Service Commission as Chairman, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 16th August, 2014.

U.S. CHATTOPADHYAY, Under Secretary

No. 39019/06/2008-Estt (B)—Consequent upon completion of his term of appointment, Prof. D.P. Agrawal has demitted the office of Chairman, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 16th August, 2014.

U.S. CHATTOPADHYAY, Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 7th August 2014

No. DIII/460/CF-71/2013—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Kiron Dhirajlal Shah as the Honorary Consul of the Republic of Lithuania in Bengaluru with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Kiron Dhirajlal Shah comprises the States of Karnataka and Kerala with the seat in Bengaluru.

SANJEEV KHANDURI, Deputy Chief of Protocol (F)

No. DIII/460/CF-04/2014—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Ali Adam as Consul of the Republic of Maldives in Thiruvananthapuram with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Ali Adam comprises the State of Kerala with the seat in Thiruvananthapuram.

SANJEEV KHANDURI, Deputy Chief of Protocol (F)

No. DIII/460/CF-50/2013—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Vinay Rohidas Patil as the Honorary Consul of the Republic of Bulgaria in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Vinay Rohidas Patil comprises the State of Maharashtra with the seat in Mumbai.

SANJEEV KHANDURI, Deputy Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 12th August 2014

No. PFG/1051/2014-Adm.I—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Mathur, as Assistant Director (OL) on his promotion on ad hoc basis in Ministry of Corporate Affairs in PB-3 of Rs. 15600—39100/- + Rs. 5400/- (Grade Pay) w.e.f. 04.08.2014 (FN).

RAVI VAZIRANI, Under Secretary

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 19th August 2014

No.A-19014/01/2014-Estt. Consequent upon being approved for appointment to the Grade of Under Secretary of Central Secretariat Service (CSS) vide Department of Personnel & Training Order No.5/8/2013-CS.I(U) dated 2nd July, 2014, the President is pleased to appoint Shri Dinesh Chandra Sharma, (CSL No.8408), Section Officer of CSS Cadre of Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Department of Scientific & Industrial Research in the Pay Band-III (Rs.15600—39400) with Grade Pay of Rs.6600/- w.e.f. 01.08.2014 (F.N.) purely on ad hoc basis for a period up to 31.05.2015 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions:

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of CSS;
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The officer shall require to undergo and successfully complete the Level 'D' Training as per nomination made by DOP&T;
- (iv) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.

KULDIP KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(NATIONAL CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTING)

NOIDA- 201309, the 4th July 2014

No- A-11019/11/2014(21)-NMRF(Estt.)—The president is pleased to upgrade/promote Dr. Debasis Kumar Mahapatra, Scientist 'C' (PB-3 Rs 15,600—39,100 + 6600/-) to the grade of Scientist 'D' (PB-3 Rs. 15,600—39,100 + GP 7600/-) of General Central Service Group 'A' Gazetted (Scientist) post on in-situ basis under the Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) with effect from 01/07/2014 and until further orders.

N.K.BHAGAT, Deputy Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 28th July 2014

No. 38011/01/2014-E.II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri C.Y. Barapatre, Deputy Commissioner (Crops) in the Department of Agriculture & Cooperation, stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2014 (AN).

K. SANJAYAN, Under Secretary

The 30th July 2014

No. 44011/21/2009-E.II—Consequent upon promotion as Assistant Director (O.L.) of Central Secretariat Official Language Service Cadre (Pay Band 3 : Rs. 15600—39100 with Grade Pay Rs. 5400) on ad-hoc basis and posting in Department of Agriculture and Cooperation vide Ministry of Home Affairs, Department of Official Language's Office Memorandum No. 15/95/2013- O.L. (Service) dated 1st July, 2014, Shri Narottam Singh Rawat, an Officer of the Central Secretariat Official Language Service Cadre has taken over the charge of the post of Assistant Director (O.L.) in the Department of Agriculture and Cooperation with effect from 23rd July, 2014 (Forenoon).

2. The ad-hoc promotion shall be for a period of one year from the date of taking over the charge or till further orders, whichever is earlier.

K. SANJAYAN, Under Secretary

New Delhi, the 13th August 2014

No. 20012/1164/96-E.II—The President is pleased to appoint Dr. Gajendra Singh, Senior Technical Assistant (Manure) to the post of Assistant Development Officer (Manure), (Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial) in the Department of Agriculture and Cooperation in the Pay Scale of Rs. 9300—34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/-, PB-2 (pre-revised Pay Scale of Rs. 7500-12000) on ad-hoc promotion basis w.e.f. the forenoon of 6th August, 2014 for a period of six months or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

BRAJESH GODRA, Under Secretary

New Delhi, the 13th August 2014

No.12-2/2011-M&T(Admn.)—The President is pleased to appoint Smt G. Aruna Kumari and Shri Amir Chand Kakkar as Administrative Officer (General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial), Farm Machinery Training and Testing Institute, by promotion on regular basis in the Pay Band - 2 (Rs.9300—34800) with grade pay of Rs. 4600/- with effect from 07.07.2014 (AN) and 07.08.2014 (FN) respectively.

B.B. BHAGAT, Under Secretary

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
(DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS)

New Delhi, the 6th June 2014

No. 3-7/2004-DD-IV(Part-II): In pursuance of Articles 50 and 51 of the Articles of Association of the National Handicapped Finance & Development Corporation (NHFDC), the President is pleased to appoint the following as ex-officio Directors on the Board of Directors of the National Handicapped Finance & Development Corporation with effect from 04.06.2014 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier:—

Name	Organisation	Vice
Ms. Kiran Puri	JS&FA, M/o SJ&E	Shri Yogendra Tripathi

S. S. GUPTA, Deputy Secretary

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 30th June 2014

No. 4(349)/87-Pers.I: On attaining the age of superannuation, Dr. G.V. Ramaraju, Scientist 'G' (Emp. Code : 129) in the Department of Electronics and Information Technology (DeitY) will stand retired from service with effect from 30.06.2014.

VINOD KUMAR, Deputy Director

The 31st July 2014

No. 4(589)/95-Pers.I: On attaining the age of superannuation, Shri D.P. Singh, Scientist 'E' (Emp. Code : 253) in the Department of Electronics and Information Technology (DeitY) will stand retired from service with effect from 31.07.2014.

VINOD KUMAR, Deputy Director

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi-110001, the 13th August 2014

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.07.2014:—

- | | | |
|------|---------------------|-------------------------|
| i) | Dr. P.S.Prasad | Director General/RHS. |
| ii) | Shri. Sudhir Mittal | Adviser (Bridge). |
| iii) | Shri M.S.Mehra | Adviser (Confidential). |
| iv) | Shri S.K.Dhawan | Sr. Accounts Officer. |
| v) | Shri Daljit Singh | Private Secretary. |
| vi) | Shri T.M.Mukundan | Section Officer. |
| vii) | Shri N.K.Sevaliya | Section Officer. |

P.C.GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

No.ERB-I/2007/10/4—Shri Kul Bhushan, Member Electrical, Railway Board and Ex-Officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 31.07.2014, on attaining the age of superannuation.

P.C.GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

No.ERB-I/2007/10/4—Shri Amitabh Lal, Additional Member (Commercial), Railway Board, retired voluntarily from service with effect from the forenoon of 30.07.2014.

P.C.GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

No.ERB-I/2007/10/4—Shri Sri Niwas Singh, Deputy Director (Official Language), Railway Board expired on 04.08.2014.
--

P.C.GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

New Delhi, the 6th August 2014

No.E(GP)2011/3/2—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' Officer of Electrical Engineering Department of Indian Railways to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Electrical Engineers (IRSEE) with effect from 10.07.2012.

PANEL FOR 2011-2012

S.No.	Name	Railway
1	Sunil Kumar*	ECoR

*Shri Sunil Kumar would, however, be entitled to monetary benefit in Junior Scale w.e.f. 01/06/2014 only.

2. The appointment of the above officer is, however, subject to the final outcome of OA No. 822/2012 in Hon'ble Central Administrative Tribunal, Allahabad filed by Shri B.K.Mishra.

SUMAN SHARMA, Director, Estt.(GP)
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 19th August 2014

No. LH-21012/3/2013-SL—The President is pleased to promote the following Assistant Executive Engineers to the post of Deputy Director in the PB-3 of Rs. 15600—39100+Grade pay of Rs. 6600/- in the Directorate General of Lighthouses and Lightships with effect from the dates indicated against each :-

S. No.	Name	Date of Joining
1.	Shri Kulwant Singh	01.05.2014 (AN)
2.	Shri Umesh Kumar	30.06.2014
3.	Shri Anil Antony	02.06.2014
4.	Shri. K. Karthik Chensudar	02.05.2014
5.	Shri Mukesh Kumar	01.05.2014 (AN)
6.	Shri G. Satyanarayana	19.05.2014

SANJAY MITAL, Under Secretary

No. LH-21012/5/2013-SL—The President is pleased to promote the following Deputy Directors to the post of Director in the PB-3 of Rs. 15600—39100+Grade pay of Rs. 7600/- in the Directorate General of Lighthouses and Lightships with effect from the dates indicated against each :-

S. No.	Name	Date of Joining
1.	Shri S. Jeyaraman	30.06.2014
2.	Shri R.M. Patel	10.04.2014 (AN)

SANJAY MITAL, Under Secretary

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 1st July 2014

No. A. 38013/1/2014-E.I(B)—Smt. Santosh Dhawan, an officer of Central Secretariat Stenographers Service and working as Private Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways has retired on attaining the age of superannuation w.e.f. 30.06.2014 (AN).

D. R. SHARMA, Under Secretary

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 21st July 2014

No. 24/2014 (F.No. 11/6/2012-Admn.)—In terms of Section-5(1) and Section-19 (1) of the Right to Information Act, 2005 (No.22 of 2005), the following is the consolidated list of officers of the Ministry of Water Resources who are designated as Central Public Information Officers/ Appellate Authorities in the various Sections/ Wings of the Ministry of Water Resources:-

S.No.	Name & Designation of CPIO appointed (S/Shri/Smt)	Name of the Section/ Desk/ work	Name & Designation of the Appellate Authority appointed (S/Shri/Smt/Kum)
1	2	3	4
1.	Narendra Singh, Under Secretary (Admn)	Administration Section & SC/ST/OBC Cell	Khatchin Langel, Dir (Admn)
2.	Arun Kumar, Under Secretary (Coord)	Coordination Section	Banarsi Ram, DS (Coord & ID)
3.	Ashok Kumar Gupta, Under Secretary (ID)	Infrastructure Development	
4.	R.K. Ojha, Under Secretary (Parliament)	Parliament	Ram Swarup, Director (E-III & Parliament) except for establishment matters of FBP
5.	A.C. Trivedi, Under Secretary (E-III)	Establishment III Section	
A.	Narendra Singh, Under Secretary (Vig & FBP)	Vigilance Section & establishment matters of FBP	Prabhat Tyagi, Director (Vigilance & Estt) including establishment matters of FBP
6.	A.K. Kaushik, US (E-I)	E-I Section	
7.	Vineeth Abraham, Under Secretary (CGWB)	Central Ground Water Board Desk	Charul Baranwal, Director (GW Estt & GA)
B.	R.K. Ojha, Under Secretary (GA)	General Administration & CR Sections	
8.	Shashi Pal, Under Secretary (PSU & PPP)	Public Sector Undertakings Section and PPP Cell	R.K. Gupta, Director (GW & e-Gov.)
9.	Nandan N, Under Secretary (GW)	Ground Water Desk	
C.	Ashok Kumar Gupta, Under Secretary (e-Gov.)	e-Governance Cell	
10.	V.K. Balayan, Under Secretary (EA)	External Assistance Desks including Foreign Training & Bilateral issues and Internal Work Study Unit	Khatchin Langel, Director (EA)
D.	V.K. Balayan, Under Secretary (WS)	Internal Work Study Unit	C.K. Rawat, DS (WS)
11.	B.L. Meena, Under Secretary (B&B)	Water Quality Issues	Ravindra Singh, Director (Water Quality)

1	2	3	4
E.	Shashi Pal, Under Secretary (Information, Education and Communication)	Information, Education and Communication Cell	Ashok Gupta, Director (IEC & E-II) [During the period of training of Shri Ashok Gupta, Director from July to December, 2014, Shri R.K. Gupta, Director (GW & e-Gov) will be the Appellate Authority in respect of E-II & Shri Prabhat Tyagi, Director (Vig & Estt) in respect of IEC]
12.	S.K. Kataria, Under Secretary (E-II)	Establishment-II Section	
13.	Shraddha Mathur, Assistant Director (OL)	Official Language Section	Ramesh Babu Aniyeri, Director (OL)
14.	Avanish Kanth, Sr. Hydrogeologist	Hydrology Project matters of Brahmaputra & Barak Wing	Anuj Kanwal, Sr. Joint Commissioner (B&B)
E.	B.L. Meena, Under Secretary (B&B)	Matters of Brahmaputra & Barak Wing other than Hydrology Project	
15.	Munni Lal, Sr. Joint Commissioner (Ganga)	Ganga Wing	N.K. Mathur, Commissioner (Ganga)
16.	Ravish Ali, Under Secretary (PP)	Policy and Planning Section	M.K. Sinha, Sr. Joint Commissioner (PP)
17.	Ajay Kumar, Under Secretary (E-IV)	Matters related to NCA, BCB, BRB, SSCAC, Tungabhadra Board and establishment matters of NWDA	
18.	Moti Lal, Director (CAD)	State Projects Wing – for CAD related matters	Pradeep Kumar, Commissioner (SPR)
19.	Asit Chaturvedi, Deputy Commissioner (BM)	River Basin Management, Administration of UP, Bihar, MP Reorganisation Act, Inter State Water Disputes Act, Inter State Water Disputes Tribunal, technical matters of NWDA and Inter-linking of Rivers	S.K. Gangwar, Sr. JC (BM)
F.	Ajay Kumar, Under Secretary (E-IV)	Project Section	O.R.K. Reddy, Sr. Joint Commissioner (PR)
20.	S.K. Dahiya, Under Secretary (Pen. River)	Peninsula River Wing	Reading Shimray, Sr. JC (Pen. River)
21.	Anil Kumar, Assistant Engineer (MI)	Minor Irrigation	S.L. Jain, Sr. Joint Commissioner (MI)
G.	A.C. Trivedi, Under Secretary (WB)	Water Bodies	
22.	S.P. Abraham, Sr. Joint Commissioner (Indus)	Indus Wing	K. Vohra, Commissioner (Indus)
23.	Bindu Sreedathan, Director (MI Stats)	Minor Irrigation Statistics	Servesh Kumar, Additional Director General
24.	Vijay Srivastava, Under Secretary (Finance)	Finance Wing – Finance Desks and Budget Section	Manish Tripathi, Director (Finance)

1	2	3	4
25.	Joginder Singh, Director (National Water Mission)	National Water Mission	M. Satyanarayana, Advisor (Coord & Monitoring)
26.	K.K. Pandey, Assistant Controller of Accounts	Matters related to Principal Accounts Office and Cash Section	S.T. Uke, Controller of Accounts
27.	Bishwanath Das, Sr. Accounts Officer (FBP)	Matters related to Pay & Accounts Office (FBP)	
28.	D.D. Gaikwad, Sr. Accounts Officer (CWPRS)	Matters related to Pay & Accounts Office (CWPRS)	
29.	D.P. Sharma, Sr. Accounts Officer (CGWB)	Matters related to Pay & Accounts Office (CGWB)	
30.	Shalabh Kumar, Assistant Controller of Accounts (CWC)	Matters related to Pay & Accounts Office (CWC)	
31.	Upendra Malhotra, Pay & Accounts Officer (CSMRS)	Matters related to Pay & Accounts Office (CSMRS)	

Note : In case work of any CPIO/ Appellate Authority is changed due to transfer/ retirement/ any other reasons and a new official joins in place of the existing CPIO/ Appellate Authority, he/ she would automatically be the CPIO/ Appellate Authority of the allotted work. In case any CPIO/ Appellate Authority proceeds on leave/ training, the concerned Link Officer or the officer who is entrusted with the charge of the post of the concerned Division/ Branch Head would automatically be the CPIO/ Appellate Authority of the allotted work.

NARENDRA SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 30th June 2014

No A-32014/01/2014-Adm.I.—The President is pleased to appoint Smt. Ria Sinha (ST), Assistant (CSL No. & Year: 2133/2003) of CSS Cadre of the Ministry of Labour & Employment to the Grade of Section Officer (Group “B”/Gazetted) in the Pay Band-2: Rs.9300-34800/- + Grade Pay: Rs.4800/- on ad-hoc basis w.e.f. 27.06.2014 (FN), in pursuant to DOP&T’s O.M. No. 6/10/2013-CS.I(S) dated 31-12-2013.

2. The appointment of Smt. Ria Sinha to the post of Section Officer on ad-hoc basis is subject to following conditions:-

- The period of ad-hoc promotion would be upto 30.06.2014 or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier;
- The ad-hoc appointments shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officer for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer Grade of CSS;
- The ad-hoc appointments would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available through Select Lists.

PAWAN KUMAR, Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in